



धडल्ले से बनाया जा रहा नकली गुटखा व तंबाकू, सागर-दमोह तक हो रही सप्लाई

छतरपुर. कई गुना मुनाफा देने वाला गुटखा का अवैध कारोबार बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय व नौगांव इलाके में अवैध फैक्ट्रियों में नकली ब्रांडेड गुटखा बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा है। इसके साथ ही ग्वालियर-महोबा से भी अवैध रूप से गुटखा मंगाया जा रहा है। अवैध गुटखा न केवल छतरपुर जिले में खप रहा है बल्कि बड़ी मात्रा में सागर-दमोह तक सप्लाई भी किया जा रहा है। गुटखा की मांग और मुनाफा को देखते हुए कई व्यापारी अवैध धंधे में उतर गए हैं। अवैध रूप से बने गुटखा को छोटे मालवाहकों से शहर-गांव और जिले के बाहर भेजा जा रहा है। कमीशन ज्यादा होने से दुकानदार भी इसकी बिक्री पर जोर दे रहे हैं।

पिछले कुछ समय से अवैध गुटखा बनाने वाले व्यापारियों ने नगर सहित आसपास के क्षेत्र को अवैध गुटखा फैक्ट्रियों का हब बना रखा है। ऐसा नहीं है कि इसकी भनक संबंधित अधिकारियों को नहीं हो, इसके बाद भी अधिकारियों द्वारा इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिससे नगर सहित क्षेत्र में बेखोफ अवैध गुटखा बनाने और बेचने का कारोबार पनप रहा है। जानकारी के अनुसार विगत कई वर्षों पूर्व लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिक्स गुटखा पर रोक लगाई थी। जिसके बाद से लाइसेंसधारी गुटखा व्यापारियों द्वारा पान मसाला और तम्बाकू अलग-अलग बनाए जाने लगे थे। बिना लाइसेंसधारी अपनी-अपनी मिक्स गुटखा की मशीनें लगाकर तम्बाकू युक्त गुटखा बनाकर व्यापार कर रहे हैं।

नकली गुटखा, तंबाकू बना रही फैक्ट्रियां

छतरपुर के गल्लामण्डी, सरानी रोड, शहर के बाहरी क्षेत्रों एवं कुछ ग्रामीण इलाकों में ब्राण्डेड गुटखा, तंबाकू की मांग को पूरा करने के लिए इनका नकली उत्पाद बनाया जा रहा है। इन इलाकों में 50 से ज्यादा फैक्ट्रियां चल रही हैं, जहां धडल्ले से तंबाकू और गुटखे का निर्माण हो रहा है।

देशी फैक्ट्री में बन रहा नकली ब्रांडेड गुटखा

अवैध रूप से संचालित देशी गुटखा फैक्ट्रियों में माफियाओं में अवैध तरीके से ब्रांडेड गुटखों का नकली माल भी तैयार किया जा रहा है। जिसमें राजश्री, कमलापसंद, तलब सहित कई नामी गुटखा का डुप्लीकेट माल तैयार किया जा रहा है। गुटखा माफिया के गुर्गे दुकानदारों के घर-घर जाकर होम डिलेवरी करते हुए अवैध गुटखा बेच रहे हैं। क्षेत्र में अवैध रूप से नवाब, योगी, मोनी, भोला, किस्मत 2, किंग, जन्नत 2, राजकमल, पवन, समता, मनपसंद सहित कई नामों से अवैध गुटखों का निर्माण किया जा रहा है।

Source: <https://www.patrika.com/chhatarpur-news/fake-gutkha-and-tobacco-are-being-made-from-scratch-7769034/>